

याह! | मेरा याह! | मेल | जागरण मुख्य पृष्ठ | Font help

खोज

खोज

मुख्य पृष्ठ राष्ट्रीय राज्यों की खबरें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खेल मनोरंजन

Select State

Select City

Go

इसे मेरा स्थायी शहर बनाएं

## फलाईओवर बनेंगे, होगा सफर सुहाना

Dec 28, 07:50 pm

बताएं

भूप सिंह जून, डीएलएफ (गुडगांव)

साइबर सिटीवासियों के लिए खुशखबरी है। डीएलएफ क्षेत्र, इससे सटी कालोनियों, शापिंग मॉल, आईटी एसईजेड व कारपोरेट आफिस में काम करने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। हुडा ने डीएलएफ क्षेत्र में दो फलाईओवर व तीन अंडरपास बनाने की योजना को हरी झंडी दे दी है। इसी वित्त वर्ष में इस योजना पर काम भी शुरू हो जाएगा। इस परियोजना पर करीब 347 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। हुडा व डीएलएफ रूप से इस परियोजना को पूरा करेंगी। यह योजना पूरी होने के बाद शंकर चौक, डीएलएफ तीन, दो, नाथूपुर, गुडगांव महरौली रोड पर सिकंदरपुर चौक इलाका, डीएलएफ फेस वन, एमएलएल फ्लैट, सेक्टर 42, 43, सेक्टर 27, 28, सनसिटी, सेक्टर 56 आदि क्षेत्रों के लोगों का सफर सुहाना हो जाएगा।

परियोजना के मुताबिक, दिल्ली- गुडगांव एक्सप्रेस वे के शंकर चौक की सर्विस लेन पर अंडरपास बनेगा। इससे दिल्ली से गुडगांव वाला ट्रैफिक सीधी डीएलएफ साइबर पार्क की ओर चला जाएगा। इससे साइबर पार्क क्षेत्र ट्रैफिक सिगनल फ्री हो जाएगा। इससे आगे इसी योजना के तहत गुडगांव महरौली रोड पर स्थित सिकंदरपुर चौक, जिसे ब्रिस्टल चौक के नाम से भी जाना जाता है, पर भी अंडरपास बनेगा। यहां अंडरपास बनने से एमजी रोड भी ट्रैफिक सुगम हो जाएगा। ब्रिस्टल चौक से डीएलएफ गोल्फ होते हुए सेक्टर 56 तक एमएलए फ्लैट - सेक्टर 42 चौक पर फलाईओवर बनेगा और इससे आगे जेनपेक्ट चौक पर अंडरपास बनेगा। यह योजना पूरी होने के बाद गुडगांव-महरौली रोड, फरीदाबाद रोड सीधे दिल्ली-गुडगांव एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएंगे। साइबर सिटी की दोनों मुख्य सड़कों फरीदाबाद रोड व एमजी रोड पर ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। यह परियोजना दो साल में पूरी होगी। हुडा व डीएलएफ कंपनी पचास पचास प्रतिशत वहन करेगी।

हुडा के मुख्य अभियंता वीके गुसा ने जानकारी दी कि पिछले सप्ताह हुई उच्चस्तरीय बैठक में हुडा व डीएलएफ ने मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) को मंजूरी मिल गई। श्री गुसा के अनुसार फलाईओवर व अंडर पास के अलावा करीब छह किलोमीटर लंबे इस क्षेत्र में दोनों ओर चार लेन की सर्विस लेन भी बनेगी। फलाईओवर व अंडरपास तीन लेन के होंगे।

अभी क्या हैं दिक्कतें

एक्सप्रेस वे से डीएलएफ दो व तीन में अधिक ट्रैफिक आता है। शंकर चौक से सिकंदरपुर चौक तक जाने वाली सड़क पर प्रतिदिन एक लाख से अधिक वाहनों का आवागमन होता है। इस क्षेत्र में सर्विस लेन नहीं है और यू टर्न, साइबर पार्क क्षेत्र के के इंट्री व एग्जिट प्वाइंट पर वाहनों की आवाजाही से जाम लगता है। व्यस्त समय में यहां पर आधे से पौन घंटे जाम लगना आम है। इससे आगे सिकंदरपुर चौक व एमएलए फ्लैट प्वांट, सेक्टर 42-43 चौक, जेनपेक्ट चौक पर भी जाम लगता है। शाम के समय तो डीएलएफ गोल्फ कोर्स रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लगती हैं। इसे क्षेत्र में कारपोरेट आफिस, प्रशिक्षण संस्थान, अस्पताल, होटल, शापिंग मॉल है। जेनपेक्ट चौक से सुशांत लोक, साउथ सिटी, डीएलएफ फेस पांच से सीधा फरीदाबाद जाने वाले ट्रैफिक का आवागमन होता है। इससे जाम लग जाता है।

लाभान्वित होने वाले क्षेत्र

डीएलएफ फेस तीन, दो, एक, सुशांत लोक, उद्योग विहार एरिया, नाथूपुर, सिकंदरपुर, ब्रिस्टल चौक, एमजी रोड स्थित शापिंग माल, कारपोरेट क्षेत्र में होने वाला क्षेत्र।

क्या कहते हैं लोग

नैसकाम की साइबर सिटी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष शुबिंदर खुराना के अनुसार एक्सप्रेस वे के शंकर चौक से लेकर सेक्टर 56 प्रस्तावित इस योजना के पूरा होने से इस क्षेत्र में करीब दो लाख काम करने वाले लोग लाभान्वित होंगे। क्षेत्र के लोगों को भी इस फायदा होगा। ट्रैफिक सुगम होगा।

डीएलएफ सिटी आरडब्ल्यूए के महासचिव सुधीर कपूर के अनुसार यह परियोजना फायदेमंद है। क्षेत्र व काम करने वाले लोगों का लाभ मिलेगा। डीएलएफ क्षेत्र वासी ट्रैफिक जाम से बेहद दुखी हैं। कालोनी से निकलते ही ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है।

### अन्य

सड़क की सफाई के बदले कंपनी कर रही है खानापूति

कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ी, उपभोक्ता सांसत में

वाहन के चपेट में आने से छात्रा गंभीर

आबादी के हिसाब से संस्थान नाकाफी

टीम की जीत के साथ शिव बना चैंपियन

आगजनी : शरारती तत्व ने वाहनों में लगाई आग

सेबी-आरबीआइ ने शुरू की महाघोटाले की जांच

हादसे में युवक की मौत

अध्यापक नियुक्त न होने से पढ़ाई बाधित

नगर निगम सुस्त, विज्ञापन माफिया सक्रिय

1 2 3 4 5 6

शीर्षकों को अपने "मेरा याहू" पृष्ठ पर शामिल करें

उत्तर प्रदेश

झारखंड

बिहार

पंजाब

ईमेल करें

मैसेंजर के द्वारा  
भेजें

प्रिंट संस्करण

लेख को दर्जा दें

दर्जा दें

(0) वोट का औसत

**Book Flight Tickets**

Select Kingfisher Red to Buy Low Fare Air Tickets. Book Tickets Now. flykingfisher.com

**marriage**

New profiles everyday from your caste. Find your match now for free. Jeevansathi.com/j

**Life Insurance @ Policybazaar**

You could get 1.45 Crore tax free at 55. Apply now. PolicyBazaar.com

Ads by Yahoo!

**जागरण YAHOO!**

मुख्य पृष्ठ  
पंचांग  
क्रिकेट

सिने मजा  
जोश  
सखी

गुदगुदी  
खाना खजाना  
धर्म मार्ग

**ON YAHOO! INDIA**

News Matrimony Cricket  
Maps Our Cities Movies  
Finance Photos Answers

**THINGS TO DO**

Check mails  
Search Jobs  
Know your future

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव  
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है  
कॉपीराइट © 2011 याहू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित  
कॉपीराइट / IP नीति